

## देर रात शराब की बोटलें गिनती रही पुलिस:कहीं शराब से भरा ट्रक तो कहीं नकली दारू की फैक्ट्री से एक ट्रैक्टर शराब बरामद

जिले के दो अलग-अलग थाना क्षेत्र से शराब की बड़ी खेप बरामद की गई। डुमरिया थाना क्षेत्र से शराब से भरा ट्रक बरामद किया गया तो बोधगया के दुमाहन के पास से नकली शराब की फैक्ट्री चलाने का खुलासा हुआ है। नकली शराब की फैक्ट्री से एक ट्रैक्टर शराब के कार्टन बरामद किए गए हैं। बोधगया से बरामद शराब के मामले में पुलिस के एक वरीय अधिकारी का कहना है कि शराब पकड़ी गई है। कागजी कार्रवाई चल रही है। विस्तार से प्रेस कांफ्रेंस के जरिए बताया जाएगा।

वहीं डुमरिया से शराब बरामद किए जाने के मामले में थानाध्यक्ष का कहना है कि नहीं अभी कुछ भी नहीं है। वह इस मामले को अपने स्तर से छिपाने में लगे थे। लेकिन शराब की बरामदगी गश्ती दल द्वारा की गई थी तो उनकी कुछ खास नहीं चल पाई और यह बात देर शाम होते-होते उनके अधिकारियों तक पहुंच गई। डीएसपी अजीत कुमार ने बताया कि शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई है। गिनती कराई जा रही है।

सूत्रों के मुताबिक झारखंड के नौडीहा थाना क्षेत्र से शराब डुमरिया थाना क्षेत्र की ओर से शराब की बड़ी खेप शराब धंधेबाज ले जा रहे थे। लेकिन सलैया मोड़ के पास पुलिस के गश्ती दल की गाड़ी देखते ही शराब धंधेबाज व ट्रक चालक ट्रक छोड़ कर फरार हो गए। इस पर पुलिस को शक हुआ और उसने ट्रक की तलाशी ली तो उसमें शराब के दर्जनों कार्टन निकले। पूरा ट्रक शराब के कार्टन से भरा पड़ा था।

Source: <https://www.bhaskar.com/local/bihar/gaya/news/somewhere-a-truck-full-of-liquor-and-a-tractor-liquor-recovered-from-a-fake-liquor-factory-129932882.html>